



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 235] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 21, 1976/अग्रहायण 30, 1898

No. 235] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 21, 1976/AGRAHAYANA 30, 1898

इस भाग में भिन्न बृष्ट संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RESOLUTION

New Delhi, the 21st December 1976

**No. U-13019/11/76-GP.**—The township of Auroville has been founded on the basis of Charter announced by the Mother on the 28th February, 1968. The Government of India and a number of State Governments have contributed substantially to the project of development of Auroville. The Auroville project was also sponsored at the initiative of the Government of India by resolutions passed by the General Conference of UNESCO held at Paris in 1966, 1968 and 1970. The Government of India have, therefore, a special responsibility in regard to the foundation and development of Auroville as a township of international importance. During the last one year, a number of problems of varied nature have arisen affecting the smooth running of the said township which call for urgent solution. These problems cannot be tackled piecemeal on an ad-hoc basis. The Government of India have, therefore, decided to set up a Committee to consider the problems of Auroville in depth and in their entirety and help in their solution with a view to promoting the objectives set forth by the Mother in the Auroville Charter. This Committee will also evolve an appropriate procedure about the clearance for entry into and stay in Auroville of foreigners.

The Committee will consist of:—

Chairman

1. Shri B. T. Kulkarni, Lt. Governor, Pondicherry

(1803)

## Members

2. Shri V. Kartikeyan, Chief Secretary, Government of Tamil Nadu.
3. Shri S. S. Siddhu, Additional Secretary, Ministry of Home Affairs.

## ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to the following:—

1. Shri B. T. Kulkarni, Lt. Governor, Pondicherry, Administration, Pondicherry.
2. Shri V. Kartikeyan, Chief Secretary, Govt. of Tamil Nadu, Madras.
3. Shri S. S. Siddhu, Additional Secretary, Ministry of Home Affairs, New Delhi.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

MAHESH PRASAD, Jt. Secy.

## गृह मंत्रालय

## मकल्प

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1976

सं० यू०-13019/11/76-जी० पी०.—ओरोविल टाउनशिप की स्थापना, 'मदर' द्वारा 28 फरवरी, 1968 को घोषित चार्टर के आधार पर की गई है। ओरोविल विकास परियोजना में भारत सरकार तथा अनेक राज्य सरकारों ने पर्याप्त योगदान किया है। ओरोविल परियोजना भारत सरकार के पहल करने पर ही, 1966, 1968 तथा 1970 में यूनेस्को के पैरिस में हुए महा सम्मेलन में पारित संकल्पों के तहत चलाई गई थी। इसलिए, अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के टाउनशिप के रूप में ओरोविल की स्थापना और विकास के संबंध में भारत सरकार की विशेष जिम्मेदारी है। पिछले एक वर्ष के दौरान, अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं जिनसे उक्त टाउनशिप के मुखारूप से संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और जिन्हें शीघ्र हल करने की आवश्यकता है। इन समस्याओं को तदर्थ आधार पर अलग अलग रूप से हल नहीं किया जा सकता। इसलिए, भारत सरकार ने ओरोविल की समस्याओं पर गहन तथा पूरी तरह विचार करने तथा उनके समाधान में मदद करने के लिए एक समिति बनाने का निर्णय किया है ताकि ओरोविल चार्टर में 'मदर' द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। यह समिति ओरोविल में विदेशियों के प्रवेश तथा ठहरने के सबंध में अनुमति देने के बारे में उचित कार्यविधि भी तैयार करेगी।

इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

## अध्यक्ष

1. श्री बी० टी० कुलकर्णी, उप राज्यपाल, पांडिचेरी।

## सदस्य

2. श्री बी० कार्तिकेयण, मुख्य सचिव,  
तामिलनाडु सरकार, मद्रास
3. श्री एस० एस० सिद्धू, अपर सचिव, गृह मंत्रालय।

**आदेश**

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जाए :—

1. श्री बी० टी० कुलकर्णी, उप राज्यपाल,  
पांडिचेरी, प्रशासन, पांडिचेरी ।
2. श्री वी० कार्तिकेयण, मुख्य सचिव,  
तामिलमनाडु सरकार, मद्रास ।
3. श्री एस० एस० सिद्धू, अपर सचिव,  
गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

महेश प्रसाद संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा  
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976

